



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 14—फरवरी 20, 2009 (माघ 25, 1930)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 14—FEBRUARY 20, 2009 (MAGHA 25, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. आरएस/1078/स्था.-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्रीमती प्रकाश मुंजाल, संयुक्त निदेशक 31 जनवरी, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई।

सी. बी. राय, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. ए-43011/02/2009-प्रशा.-I--अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की दिनांक 4 नवम्बर, 2008 को हुई बैठक के अनुसरण में, यूनिफाईड इडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) को एतद्वारा योजना आयोग के तत्वावधान में एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में संस्थापित और अधिसूचित किया जाता है। यूआईडीएआई के विचारार्थ विषय एवं आरंभिक केन्द्रीय स्टाफ की संरचना निम्नानुसार है :--

गठन :

2. यूआईडीएआई की स्थापना नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक आरंभिक केन्द्रीय टीम के रूप में की जाएगी जिसमें 115 अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

पद	स्तर	पदों की संख्या
1	2	3
यूआईडी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया		
महानिदेशक एवं मिशन निदेशक	अपर सचिव, भारत सरकार	1
उप महानिदेशक (डीडीजी)	संयुक्त सचिव, भारत सरकार	1
सहायक महानिदेशक (एडीजी)	निदेशक, भारत सरकार	1
सहायक स्टाफ		
निजी सचिव	निजी सचिव	3
चपरासी	चपरासी	2
ड्राइवर	ड्राइवर	2
कुल जन संसाधन		10

1	2	3
यूआईडीएआई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इकाइयाँ		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयुक्त	संयुक्त सचिव, भारत सरकार	35
	सहायक स्टॉफ	
निजी सचिव	निजी सचिव	35
चपरासी	चपरासी	35
कुल जन संसाधन		105
कुल योग		115

यूआईडीएआई की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

3. यूआईडीएआई का उत्तरदायित्व होगा कि वह यूआईडी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना एवं नीतियाँ निर्धारित करे, यूआईडी डेटाबेस रखे एवं संचालित करे और यह प्रचलित आधार पर इसके अद्यतन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हो।

4. यूआईडी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक होगा कि अन्य बातों के साथ-साथ यूआईडीएआई द्वारा निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का भी वहन किया जाए :

- निवासियों का यूआईडी बनाना और उन्हें सौपना।
- यूआईडी को नियमित आधार पर भागीदार डेटाबेस से जोड़ने के लिए तंत्र एवं प्रक्रिया निर्धारित करना।
- तंत्र को अद्यतन बनाने और प्रचलित आधार पर यूआईडी डेटाबेस के अनुरक्षण से संबंधित नीतियाँ एवं प्रशासनिक कार्यविधि की रूपरेखा तैयार करना।
- कार्यान्वयन भागीदारों और प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ समन्वय/सम्पर्क स्थापित करना तथा संघर्ष समाधान प्रक्रिया निर्धारित करना।
- विभिन्न सेवाओं की पूर्ति के लिए यूआईडी के प्रयोग एवं उपयुक्तता को परिभाषित करना।
- यूआईडी अस्तित्व चक्र को सभी स्तरों पर संचालित करना एवं उसका प्रबंध करना।
- यूआईडी के क्रियान्वयन के लिए विशेषकर अनुमोदित समय सीमा के संदर्भ में चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना।
- यूआईडी के साथ एनपीआर के परितुलन (अनुमोदित कार्यनीति के अनुसार) को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- अन्य अभिनामित एजेंसियों के साथ क्रॉसलिंग कर रहे हुए इसके वैधीकरण के अतिरिक्त भागीदार एजेंसियों के बीच लिंकेज स्थापित करने में क्षेत्र स्तर के संस्थानों जैसे कि पीआरआई (ज़) की लोवरेजिंग के लिए उपाय सुनिश्चित करना।
- यूआईडी के संबंध में जागरूकता व सम्प्रेषण की कार्यनीति तैयार करना तथा इसका उपयोग।
- नए भागीदार/प्रयोक्ता एजेंसियों की पहचान करना।

• एकत्र किए गए और डिजिटिकृत किए गए डेटा घटकों के मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए डेटा बेस की शुरूआत करने वाली एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करना और यूआईडी तथा इसके भागीदार डेटाबेस के बीच परितुलन व परस्पर संबंध को संभव बनाना।

• हाइरिंग/प्रतिधारण/संसाधन जुटाव/विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग तथा यूआईडीएआई और यूआईडीएआई के अंतर्गत सभी राज्य यूनियनों की बजटिंग और आयोजना से संबंधित नीतियाँ व प्रशासनिक कार्य प्रणाली तैयार करना।

5. योजना आयोग यूआईडीएआई को लाजिस्टिक्स, आयोजना व बजटीय सहायकता मुहैया कराने के लिए नोडल एजेंसी होगा। योजना आयोग केन्द्रीय स्तर पर शुरू में कार्यालय और आईटी अवसंरचना मुहैया कराएगा।

6. यूआईडीएआई में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को शहरी विकास विभाग के साधारण पूल से सरकारी आवास मुहैया कराए जाएंगे।

सुवास पाणि, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. ए-44011/1/2008-प्रशासन-1---आई.ई.एस. के एस.ए.जी. स्तर पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पदभार ग्रहण करने हेतु श्रीमती अर्चना एस. माथुर, निदेशक को दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

सं. ए-44011/1/2008-प्रशासन-1---आई.ई.एस. के एस.ए.जी. स्तर पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने हेतु, श्रीमती कीर्ती सक्सेना, निदेशक को दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

सं. ए-44011/1/2008-प्रशासन-1---आई.ई.एस. के एस.ए.जी. स्तर पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप आर्थिक कार्य विभाग में पदभार ग्रहण करने हेतु, श्री अनिल बिसेन, निदेशक को दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

सं. ए-44011/1/2008-प्रशासन-1---आई.ई.एस. के एस.ए.जी. स्तर पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप जनजातीय कार्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने हेतु श्रीमती ऊर्वशी साध्वानी, निदेशक को दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

सं. ए-44011/1/2008-प्रशासन-1--आई.ई.एस. के एस.ए.जी. स्तर पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु, श्रीमती सुनिता छिब्बा, निदेशक को दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. ए-12025/11/2008-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के सिफारिश को स्वीकृत करते हुए योजना आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन), श्री उत्तम सिंह को योजना आयोग में पे बैंड 3 में रुपये 15,600--39,100 + 7,600/- (ग्रेड पे) में उप-सलाहकार (पॉवर) के पद पर प्रोन्नति के आधार पर दिनांक 24.1.2009 के पूर्वाह्न से या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. ए-12025/9/2008-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के सिफारिश को स्वीकृत करते हुए योजना आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्राकृतिक विज्ञान), डॉ. ए. ए. सोनकूसरे को योजना आयोग में पे बैंड 3 में रुपये 15,600--39,100 + 7,600/- (ग्रेड पे) में उप-सलाहकार (ऊर्जा नीति) के पद पर प्रोन्नति के आधार पर दिनांक 27.1.2009 के पूर्वाह्न से या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

सं. एफ. 6 (2059)/2008-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 नवम्बर, 2008 के आदेश सं. 7/2/2008-ई.ओ. (एम.एम.-1) के तहत सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन को अनुपालन करते हुए श्री मनोज अहूजा, आ.ए.एस. (उड़ीसा : 90) की योजना आयोग के उपाध्यक्ष (श्री मोन्टेक सिंह आहलुवालिया) के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की अवधि को सह-अवधि आधार पर दिनांक 12.10.2008 से आगे दिनांक 31.05.2009 तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2008

सं. एफ. 6 (2076)/2008-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के मिसिल सं. 13016/1/2008-आई.ई.एस. के तहत जारी दिनांक 24.11.2008 के आदेश सं. पी-8/2008 का अनुपालन करते हुए, आई.ई.एस. के एच.ए.जी. अधिकारी श्री युद्धवीर उप्पल ने 22,400--24,500/- रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में (संशोधित पी. बी.-4, 37,400/- 67,000/-

रुपये के पे बैंड + 12,000/- रुपये ग्रेड पे) दिनांक 3 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, उप सचिव

दिनांक 16 दिसम्बर 2008

सं. एफ.-6 (1926)/2005-प्रशासन-1--नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाईनेन्स एण्ड पॉलसी की नियमित कर्मचारी, श्रीमती सुशीला पञ्चानी की दिनांक 01.09.2008 के पूर्वाह्न से दिनांक 31.12.2008 तक की अवधि के लिए, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार मंडली के अध्यक्ष (डॉ. सुरेश तेंदुल्कर) के निजी सचिव के पद पर लैटरल शिफ्ट आधार पर निदेशक के स्तर पर नियुक्ति को सक्षम अधिकारी ने मंजूरी प्रदान की है।

2. प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार मंडली के अध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर श्रीमती पञ्चानी की नियुक्ति प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार मंडली के अध्यक्ष के साथ सावधिक अथवा दिनांक 31.12.2008 तक अथवा प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार मंडली के अध्यक्ष के इच्छानुसार अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी सबसे पहले को, रहेगी।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 19 दिसम्बर 2008

सं. एफ.-6 (2077)/2008-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के मिसिल सं. 13016/1/2008-आई.ई.एस. के तहत जारी दिनांक 24.11.2008 के आदेश सं. पी-8/2008 का अनुपालन करते हुए, आई.ई.एस. के एच.ए.जी. अधिकारी श्रीमती एस. भवानी ने 22,400--24,500/- रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में (संशोधित पी. बी.-4, 37,400/- 67,000/- रुपये के बैंड + 12,000/- रुपये ग्रेड पे) दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 23 दिसम्बर 2008

सं. एफ.-6 (2078)/2008-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 के आदेश सं. 7/12/2008-ई.ओ. (एस.एम.-1) के तहत सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए श्री अमिताभा भट्टाचार्या, आई.ए.एस. (आं. प्र. : 75) ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से सचिव के वेतन पर योजना आयोग में प्रधान सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 29 दिसम्बर 2008

सं. एफ.-6 (1900)/2004-प्रशासन-1--मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड के नियमित कर्मचारी, श्री बी. एन. नागेश की योजना आयोग में

दिनांक 07.04.2008 से उनके पांच वर्षों में से बची हुई अवधि अर्थात् दिनांक 31.05.2009 तक के लिए लैटरल शिफ्ट आधार पर निदेशक के स्तर पर योजना राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति को सक्षम अधिकारी ने मंजूरी प्रदान की है।

2. योजना राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में श्री नागेश की नियुक्ति मंत्री जी की कार्य अवधि के साथ सावधिक अथवा उनके मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य समाप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी सबसे पहले हो, रहेगी।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. एफ.-6 (1926)/2005-प्रशासन-1--प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार मंडली के अध्यक्ष (डॉ. सुरेश तेंदुल्कर) के निजी सचिव के पद पर उनकी कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, श्रीमती सुशीला पञ्चानी की सेवाएं दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से उनकी मूल संस्था अर्थात् इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाईनेन्स एण्ड पॉलिसी को सौंपी जाती है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2009

सं. एफ.-6 (1694)/97-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के मिसिल सं. 13016/2/2008-आई.ई.एस. के तहत जारी दिनांक 29 दिसम्बर, 2008 के आदेश सं. पी-9/2008 का अनुपालन करते हुए आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी श्री एस. एन. ब्रह्म चौधरी ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से 18,400/- 22,400/- रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में (संशोधित वेतन बैंड-4 अर्थात् 37,400/- 67,000/- रुपये + 10,000/- रुपये ग्रेड पे) में योजना आयोग में सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2008

सं. ए-12025/01/2005 प्रशा.-II--योजना आयोग के दिनांक 13/15 सितम्बर 2007 को समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, श्रीमती सुरेखा सोनी, सांख्यिकी अन्वेषक, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की योजना आयोग में 9,300/- 34,800/- रुपये के पे बैंड-2 में अनुसंधान अधिकारी के रूप में तदर्थ प्रतिनियुक्ति अवधि एतद्वारा 12.3.2009 तक, अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

2. तदर्थ नियुक्ति से श्रीमती सुरेखा सोनी को अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा तथा अनुसंधान अधिकारी ग्रेड में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा दी गई सेवा न तो अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारण हेतु और न ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए गिनी जाएगी।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2008

सं. ए-43011/1/2008-प्रशा.-II--प्रवेशन स्तरीय प्रशिक्षण पूरा होने तथा आर्थिक मामले विभाग (आई.ई.एस. प्रभाग), वित्त मंत्रालय के दिनांक 19.11.2008 के आदेश सं. टी-32/2008 (फाइल सं. 13016/4/2008-आई.ई.एस.) के तहत योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ समयमान) के पद पर उनकी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, श्री राजकुमार ने दिनांक 24 नवम्बर 2008 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 26 दिसम्बर 2008

सं. ए-43011/01/2008.-II--आर्थिक मामले विभाग (आई.ई.एस. संवर्ग प्रभाग) वित्त मंत्रालय के दिनांक 19.11.2008 के आदेश संख्या 13016/4/2008-आई.ई.एस. के तहत कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ में स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप, श्री एस. पी. मिश्रा, अनुसंधान अधिकारी (आई.ई.एस. का ग्रेड-IV) जो योजना आयोग में 8,000-275-13,500/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में कार्यरत हैं, को 26 नवम्बर, 2008 की अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 29 दिसम्बर 2008

सं. ए-43011/01/2008.-II--योजना आयोग की दिनांक 26.12.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, योजना आयोग में 8,000-275-13,500/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में कार्यरत श्री एस. पी. मिश्रा, अनुसंधान अधिकारी (आई.ई.एस. का ग्रेड-IV) को आर्थिक मामले विभाग (आई.ई.एस. संवर्ग प्रभाग), वित्त मंत्रालय आदेश सं. 13016/4/2008-आई.ई.एस. दिनांक 19.11.2008 के तहत कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग), के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय लखनऊ में स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप, दिनांक 26.12.2008 के अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2008

सं. ए-11013/60/2004-III--राष्ट्रपति जी, श्रीमती नीलम खंडूरी (बाहरी व्यक्ति), जो इस समय सदस्य (श्री अनवारुल होदा), योजना आयोग के निजी स्टाफ में द्वितीय निजी सहायक के रूप में कार्यरत हैं, को दिनांक 01.12.2008 (पूर्वाह्न) से (पी.बी.-2) रुपये 9,300/- 34,800/- रुपये + 4,800/- रुपये (ग्रेड वेतन) में उनके निजी स्टाफ में प्रथम निजी सहायक के रूप में, सदस्य, योजना आयोग की इच्छानुसार अथवा उनके कार्यालय छोड़ने तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

बनारसी राम, अवर सचिव

दिनांक 29 दिसम्बर 2008

(विधि कार्य विभाग)

सं. ए-11013/1/2008-III--राष्ट्रपति जी, सुश्री सरिता पंजवानी (बाहरी व्यक्ति) को दिनांक 17.11.2008 (पूर्वाह्न) से (पी.बी.-3) रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 6,600/- के संशोधित वेतन वर्ग में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष (डॉ. सुरेश तेंदुलकर) के अपर निजी सचिव के रूप में अध्यक्ष ईएसी की इच्छा के अनुरूप अथवा उनके कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

वनारसी राम, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जनवरी 2009

सं. ए-19/जी.ए./90--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के संदर्भ संख्या 14/8/2008-ई.ओ. (एस.एम.-I) दिनांक 24 जनवरी, 2009 के अनुरूप में श्री आर. भट्टाचार्य, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एपी : 78) को एतद्वारा निर्वाचन आयोग सचिवालय से 31.01.2009 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है ताकि वे योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपना पदभार संभाल सकें।

एस. आर. कार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2009

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा.-I (वि.वि.)--विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर अधीक्षक (विधि) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 14.01.2009 की पूर्वाह्न से सहायक के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है :--

1. श्री आर. एस. जयकृष्णन
2. श्री के. के. शर्मा

एल. आर. राव, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. ए-12026/5/2000-प्रशा.-I (वि.वि.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 जनवरी, 2009 के का.ज्ञा.सं. 4/4/2008-के. सचि.-1 (डी) के अनुपालन में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी और विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में दिनांक 01 अगस्त, 2007 से तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर कार्यरत, श्री एल. आर. राव को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ष 2005 के चयन ग्रेड (उप सचिव) में शामिल कर लिया गया है।

दया चन्द, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. ए-38013/1/2008-प्रशा.-IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक (रा. भा.) दिनांक 31 जनवरी 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. 14012/18/2006-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम-6 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा, 2005 के आधार पर उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं :--

भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम	जन्म की तारीख	भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की तारीख
श्री माईकलराज एस.	02.05.1978	29.08.2006 (पूर्वाह्न)

2. श्री माईकलराज एस. की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति अनंतिम है और संबंधित प्राधिकारियों की उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त संबंधी अपेक्षित सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन है।

इन्दरजीत कौर, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. I-21023/11/2004-आई.पी.एस.-IV--भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग)नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मेघालय सरकार और गृह मंत्रालय के यूटी प्रभाग की सहमति से, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अत्यधिक विपत्ति के आधार पर, श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, आई.पी.एस. (ए. एम. : 1997) का असम मेघालय के आई.पी.एस. संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. के आई.पी.एस. संवर्ग में स्थानापन्न करती हैं।

राजेन्द्र कुमार
अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. 23/1/2009 प्रशा.--राष्ट्रपति, सुश्री कीर्ति सक्सेना, आई.ई.एस. (82) को दिनांक 21.11.2009 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

अशोली चलाई, उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2008

सं. क्यू./पी.ए.-II/28/2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारत के राजदूतावास, अल्जीयर्स में प्रथम सचिव, श्री गौतम पाल, 31 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी.)

दिनांक 1 जनवरी 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/01/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री श्वासपावन सिंह, राजदूत/भारत के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र का ऑफिस जेनेवा से 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू./पी.ए.-1/02/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्रीमती नीलम देव सब्बरवाल, राजदूत, भारतीय राजदूतावास, दि हेग, से 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू./पी.ए.-1/03/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री रत्न सिंह, कौंसलर भारतीय राजदूतावास लुआन्डा से 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू./पी.ए.-1/5/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 01 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल गफूर अलगाूर	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
2.	श्री रांग बिहारी लाल	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
3.	श्री वी. के. शर्मा	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
4.	श्री एन. पी. एस. आजाद	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV

1	2	3	4
5.	श्री डी. के. देब वर्मा	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
6.	श्री हेमन्त एच. कोटलवार	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
7.	श्री सन्दीप चक्रवर्ती	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
8.	श्री चरनजीत सिंह	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
9.	श्री संजय राणा	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV

2. भा. वि. से. के ग्रेड-IV में पदोन्नति पर उक्त अधिकारियों ने भा.वि.से. के कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड में 01.01.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-IV में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक 2 जनवरी 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/4/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 01 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड
1.	श्री दिव्याभ मनचन्दा	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II
2.	श्री दिनकर खुल्लर	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा. वि. से. के ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारियों ने भा.वि.से. के ग्रेड-III में 01.01.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-II में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/6/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख के अनुसार पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री ए. के. त्रिगुनायत	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	31.12.2008
2.	श्री जे. के. त्रिपाठी	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	23.12.2008
3.	श्री ए.वी.एस. रमेश चन्द्रा	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	23.12.2008

2. भा. वि. से. के ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारियों ने भा.वि.से. के ग्रेड-IV में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-III में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. क्यू/पी.ए.-1/7/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख के अनुसार पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री दिलीप सिन्हा	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II	22.12.2008
2.	सुश्री हौमाई साहा	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II	19.12.2008
3.	श्री सुरेश कुमार गोयल	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II	19.12.2008
4.	श्री अशोक सज्जनहार	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II	19.12.2008
5.	श्री बिरेन नन्दा	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II	19.12.2008
6.	श्री दीपक के. भोजवानी	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II	19.12.2008
7.	श्री अशोक के. मुकर्जी	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II	19.12.2008
8.	श्री दिनकर पी. श्रीवास्तव	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II	19.12.2008

2. भा. वि. से. के ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारियों ने भा.वि.से. के ग्रेड-III में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-II में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक 9 जनवरी 2009

सं. क्यू/पी.ए.-1/8/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-I स्वस्थाने के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने

दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री बनबीत राय	राजदूत, भारतीय राजदूतावास, ओस्लो	01.12.2008
2.	श्री एस. एम. गवई	उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायोग, ओटावा	01.01.2009
3.	श्री एम. एल. डीगलियाना	राजदूत, भारतीय राजदूतावास, सोफिया	01.01.2009

रुद्र गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक 14 जनवरी 2009

सं. क्यू/पी.ए.-II/02/2009--आर्धवार्षिकता की आयु प्राप्त होने पर श्री आर. के. गोयल, प्रीम सचिव भारतीय राजदूतावास ब्रुसैलस से 30 नवम्बर 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैडर)

दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. क्यू/पी.ए.-1/9/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 01 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड
1	2	3	4
1.	श्री राम रत्न	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
2.	श्री आई.पी. मोहनन	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
3.	श्री अमाल के. गोस्वामी	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
4.	सुश्री मन्जू	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
5.	श्री अविनाशचन्द्र पाण्डे	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
6.	श्री के. पी. पिल्लै	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
7.	श्री श्रीचन्द	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
8.	श्री विजय कुमार	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
9.	श्री एस. एन. श्रीनिवासन	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
10.	श्री आर. के. झा	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
11.	श्री राम लाल नेगी	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV

1	2	3	4
12.	श्री बी. एस. रामलिंगम	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
13.	श्री मनीष प्रभात	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
14.	सुश्री पूजा कपूर	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
15.	श्री अजनीश कुमार	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
16.	श्री एम. श्रीधरन	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
17.	श्री अरुन कुमार साहू	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
18.	श्री राजकुमार सिंह	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
19.	श्री राजेश वैशण्व	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV
20.	श्री पुनीत राय कुण्डल	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV

2. भा. वि. से. के ग्रेड-IV में पदोन्नति पर उक्त अधिकारियों ने भा. वि. से. के कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड में 01.01.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा. वि. से. के ग्रेड-IV में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ

उप सचिव (एफ. एस. पी. और कैंडर)

कार्यालय : प्रोटेकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. डी-III/460/सी.एफ.-36/2008--राष्ट्रपति ने ओम प्रकाश लोहिया की मुम्बई में लिथुआनिया गणराज्य के भानद.कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री ओम प्रकाश लोहिया के कौंसली क्षेत्राधिकार में गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्य होंगे।

एच. आर. सिंह

प्रोटेकोल उप-प्रमुख (एफ)

दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. डी-III/460/सी.एफ.-43/2008--राष्ट्रपति ने श्री अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल ईसा की मुम्बई में सऊदी अरब राज्य के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल ईसा के कौंसली क्षेत्राधिकार में मुम्बई शहर होगा।

एच. आर. सिंह

प्रोटेकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनायें

सं. 60/2008 फा. सं. सी. 50/02/2008-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के निम्नलिखित

अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड (14,300-400-18,300/- रुपये संशोधन पूर्व) प्रदान करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम/जन्म तिथि	गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड प्रदान किये जाने की तारीख
1.	श्री दीपक गर्ग/21.12.1966	1.1.2004
2.	श्री राजीव गुप्ता/14.08.1966	1.1.2004
3.	श्री पी. रवीन्द्र बाबू/08.11.1955	1.1.2004
4.	श्री अमित गोयल/30.06.1966	1.1.2005
5.	श्री जे. पी. सिंह/28.09.1963	1.1.2005

2. इस आदेश से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आर. सानेहवाल, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. 02 (फा. सं. ए-19013/25/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री के. एस. रावत, भारतीय सांख्यिकी सेवा (भा. सां. से.) को दिनांक 24.12.2008 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. 04 (फा. सं. ए-38013/19/2008-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एम. एस. राणा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 05 (फा. सं. ए-38013/20/2008-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्रीमती यशोदा गौरी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2009

सं. ए-22011/1/2009-प्रशा.-I ए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के अकार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) अधिकारी श्री सुनील सरन (आई.ई.एस.) को 8,700/- रुपये ग्रेड पे सहित 37,4000--67,000/- रु.

के पे बैंड-4 में 5 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अपर आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. ए-22011/12008-प्रशा.-1 ए-राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएसी) अधिकारी श्री अनिल बिसेन (आई.ई.एस.) को पे बैंड-4 में 10,000/- रुपये ग्रेड पे सहित 37,400--67,000/- रुपये में 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2009

सं. ए-19015/15/2008-डी.आर.टी.--केन्द्र सरकार, श्री वासुदेव धर, अनुभाग अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, कोलकाता को प्रतिनियुक्ति आधार पर, पे बैंड-3, रुपये 15,600--39,100 + ग्रेड पे 6,600/- रुपये में, दिनांक 15.12.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-III, कोलकाता में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19013/6/2008-डी.आर.टी.--केन्द्र सरकार, श्री इम्तियाज़ अली, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरंग को प्रतिनियुक्ति आधार पर, पे बैंड 15,600--39,100/- रुपये में 7,600/- रु. की ग्रेड पे सहित दिनांक 19.12.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी में पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, उप सचिव

दिनांक 9 जनवरी 2009

सं. ए-19013/5/2008-डी.आर.टी.--केन्द्र सरकार, श्री सैकत सरकार, (आई.ई.एस. : 95), संयुक्त निदेशक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को प्रतिनियुक्ति आधार पर, 15,600--39,100/- रुपये के पे बैंड में, 7,600/- रुपये की ग्रेड पे सहित, दिनांक 15.12.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-III, कोलकाता में पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, उप सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. ए-12026/4/2008-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की अवधि को 30 जून, 2009 या नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक और आगे बढ़ाते हैं :-

1. श्रीमती प्रेम सचदेवा
2. श्री डी. सी. केम
3. श्री शरद एन. हुलाले
4. श्रीमती उषा गिल
5. श्री नरेन्द्र प्रकाश
6. श्री प्रवीण चन्द्र शर्मा
7. श्रीमती विजय खरात
8. श्री सी. एम. कोछड़
9. श्री सुनील कुमार
10. श्रीमती बिमला शर्मा

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति नियमित नियुक्ति का दावा प्रदान नहीं करेगी और ग्रेड में लघु अवधि आधार पर उनके द्वारा दी गई सेवाएं अगले उच्च ग्रेड के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. पीएफजी (2132) प्रशा.-I/2009--अधिवर्षिता की आयु पर पहुंचने के कारण वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री प्यारे लाल 31 जनवरी, 2009 की पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं।

2. तदनुसार उनका नाम इस विभाग के वेतन पत्रक से काट जाया जाता है।

मीताली घोष, अवर सचिव

(मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. फा. ए-60011/03/07-सीएसी--राष्ट्रपति, भारतीय लागत लेखा सेवा के सलाहकार (लागत) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में वेतन बैंड-4 के 37,400-67,000/-रु. के वेतनमान में 10,000/- रुपये ग्रेड वेतन सहित (पूर्व संशोधित 18,400-500-22,400/- रुपये) के वेतनमान में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से एवं अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

सलाहकार के रूप में नियुक्ति पर उन्हें उनके नामों के सामने दिए गए कार्यालयों में उनकी तैनाती कर दी गई है :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का स्थान
1.	श्रीमती अरुणा सेठी	04.07.2008 (अपराह)	मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
2.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	29.07.2008 (पूर्वाह)	मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय

मनोज कुमार साहू
उप निदेशक (लागत)

सं. फा. ए-60011/03/07-सीएसी--संव लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति, भारतीय लागत लेखा सेवा के सहायक निदेशक (लागत) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में वेतन बैंड-3 के 15,600--37,400/- रुपये के वेतनमान में 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन सहित (पूर्व संशोधित 8,000-275-13,500/- रुपये) में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से एवं अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

सहायक निदेशक लागत के रूप में नियुक्ति पर उन्हें उनके नामों के सामने दिए गए कार्यालयों में उनकी तैनाती कर दी गई है :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का स्थान
	सर्वश्री/श्रीमती		
1.	चुनी लाल घोष	26.06.2008 (पूर्वाह)	मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
2.	राजेश कुमार अग्रवाल	03.06.2008 (अपराह)	मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3.	ललित बधवा	13.05.2008 (पूर्वाह)	टैरिफ कमीशन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
4.	सूरज कुमार प्रधान	04.06.2008 (पूर्वाह)	मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
5.	विजय कुमार	06.06.2008 (अपराह)	टैरिफ कमीशन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

मनोज कुमार साहू
उप निदेशक (लागत)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 जनवरी 2009

सं. पीएफजी (863)/2004-प्रशा.-I--मंत्रालय के दिनांक 21.01.2004 के समसंख्यक अधिसूचना के साथ एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.01.2009 के पत्राचार संख्या 27/36/2008-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में श्री जितेश खोसला, भा.प्र.से. (ए. एम. : 79) जो वर्तमान में कारपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 20.01.2009 से तीन महीनों की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 20.04.2009 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सेवा विस्तार प्रदान किया जाता है।

आर. सी. टली, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. 1/2009 (ए-32012/1/2008-ई-1)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 जून, 2008 के आदेश सं. 5/1/2008-सी.एस.-I (डेस्क) और दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 के आदेश सं. 5/1/2008-सी.एस.-I (यू) पार्ट-V के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की अनुभाग अधिकारी सुश्री आर. लक्ष्मी देवी (सीएसएल सं. 6123, जन्म तारीख 25.08.1961) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 पूर्वाह से तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वर्धन है :--

- इस तदर्थ प्रोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय इस संबंध में कोई कारण दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

आर. के. मित्रा, निदेशक

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. 1/2009 (फा. 6/2368/2005/एच.आर.डी.-1/287)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में श्री के. आर. पुनिया, विदेश व्यापार विकास अधिकारी (के.स.से.) 31.1.2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

जी. पार्थसारथी, उप महानिदेशक
विदेश व्यापार

दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. 2/2009 (फा. सं. 6/1477/1984/एच.आर.डी.-1/294)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जे. एम. देसाई, भारतीय व्यापार

सेवा, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय सूरत में उप महानिदेशक, विदेश व्यापार 31.1.2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

जी. पार्थसारथी, उप महानिदेशक
विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

सं. ए-45011/2/2008-स्थापना-I--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री संजय नारंग, समूह 'ग' आशुलिपिक को 19.12.2008 (पूर्वाह) से 31.12.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले होगा पूर्णतः तदर्थ आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, संवर्ग में निजी सचिव (समूह 'क' और 'ख' विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति से, नियुक्त किए गए अधिकारी को उस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के समूह 'क' और 'ख' (विलयित) निजी सचिव में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा और तदर्थ नियुक्तियों को बिना कारण बताये कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, इन नियुक्तियों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 31.5.2006 और 1.3.2007 की ओ. एम. सं. 5/8/2006 सी. एस.-II की शर्तें भी लागू होंगी।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2009

सं. 1/2009 (ए-12022/7/2005-स्था)--राष्ट्रपति, श्री आदित्य कुमार, आई.एफ.एस. (यूपी : 87) को 27 जनवरी, 2009 को पूर्वाह से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक 14,300-400-18,300/- रुपये (पूर्व संशोधित) [37,400-67,000 + 8,700/- (ग्रेड पे) पे बैंड-4] के वेतनमान में वस्त्र मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. 2/2009 (ए-45013/1/2008-स्था.)--श्री ए. के. सिंह, भा.प्र.से. (म. प्र. : 72) सचिव, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी, 2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2009

सं. ए-32011/4/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में की गई तदर्थ नियुक्ति को 9,300-34,800/- रुपये

के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हैं :--

क्रम	नाम	तक बढ़ाई गई अवधि सं.
1.	श्रीमती अमृता	30.06.2009
2.	श्रीमती सुरिन्दर रानी	30.06.2009
3.	स्वर्गीय श्री ए. के. जैन	18.10.2008
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार	30.06.2009
5.	श्रीमती प्रेमिला शुक्ला	30.06.2009
6.	श्री एच. बी. सिंह	30.06.2009
7.	श्री टीकम सिंह	30.06.2009
8.	श्री बसन्त कुमार	30.06.2009

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति सर्वथा तदर्थ स्वरूप की है और उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. ए-19011/09/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती विनोद कोतवाल, आईपी एंड ओए एंड एफएस (94), उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को उनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में धारित उप सचिव के पद को निदेशक के रूप में पुनः पदनामित करते हुए 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन वाले 37,400-67,000/- रुपये के वेतन बैंड-4 में 19.01.2009 से उनके शेष कार्यकाल अर्थात् 13.07.2013 तक अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती विनोद कोतवाल, आईपी एंड टीए एंड एफएस (94) ने 19.01.2009 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. नन्दा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. ए-12011/15/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/2008-सी.एस.-1 (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में उनका नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, इस

विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तदर्थ उप सचिव श्री जी. पी. पिल्लई, को 1 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जनवरी 2009

सं. ए-19011/1/2009-पी.-II (.)--राष्ट्रपति, श्री राजीव गौबा आई. ए.एस. (जे. एच. : 82) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित, वेतन बैंड-4 में 37,400/-67,000/- रुपये के वेतनमान में 16 जनवरी, 2009 पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. ए-32012/1/2005-पी.-II (.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/5/2008-सी. एस.-I (एस) के अनुसरण में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में 9,300--34,800 + 4,800/- रुपये (ग्रेड वेतन) के संशोधित संरचित वेतन पी.बी.-2 में तदर्थ नियुक्ति 30.06.2009 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है :

क्रम नाम

सं.

- | 1 | 2 |
|-----|-----------------------|
| | सर्वश्री |
| 1. | विनोद सिंघल |
| 2. | परमानन्द |
| 3. | शिव चरण |
| 4. | डॉ. बी. कुम्भारे |
| 5. | सुप्रभात चक्रवर्ती |
| 6. | शमशेर सिंह |
| 7. | राधे श्याम |
| 8. | श्रीमती वीणा आहुजा |
| 9. | श्रीमती शकुंतला बेदी |
| 10. | श्रीमती एस. के. बाबरा |
| 11. | हरकेश चन्दर |
| 12. | श्रीमती सुषमा सूद |

1 2

- सर्वश्री
13. श्रीमती सरोज वर्मा
 14. शिव कुमार
 15. एस. सी. जैन
 16. विनोद कुमार
 17. सतीश मोहन
 18. प्रवीण कुमार झा
 19. श्रीमती सरोजिनी सक्सेना
 20. यशवंत सिंह
 21. श्रीमती सेल्सा कैरकेट्टा
 22. स्वपन बैनर्जी
 23. श्रीमती आशा महाजन
 24. श्रीमती दमयंती देवी
 25. श्रीमती शोभा बालाकृष्णन

यह तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में नियमित नियुक्ति हेतु शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं देती है। तदर्थ आधार पर नियुक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी संवर्ग में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा इन दोनों वर्गों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति हेतु योग्य न होने पर, उन्हें ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर, जिस तारीख से उन्होंने (नियमित अनुभाग अधिकारियों) ने इस मंत्रालय में कार्य संभाला है, सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. ए-12026/1/2008-सी.पी.डब्ल्यू.--राष्ट्रपति, डॉ. सन्त प्रसाद गौतम, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली में अध्यक्ष के रूप में (वेतन बैंड-4; वेतनमान 37,400--67,000; ग्रेड वेतन 12,000/- रुपये) प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्षों की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, प्रधान बेंच, नई दिल्ली के समक्ष ओ. ए. सं.-52/2009 में अंतिम आदेश की शर्तों के अध्वधीन होगी।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. ए-32014/7/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 नवम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2007-सी.एस.-II तहत जोन बनाने की योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (म.नि.स्वा.से. सहित) के संवर्ग में वर्ष 2005 हेतु सीएसएसएस (पीएम) की "क" तथा "ख" (विलयित) की प्रवर सूची में नाम शामिल किए जाने पर, सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड "सी" आशुलिपिकों को 5 नवम्बर, 2008 से नियमित आधार पर इस मंत्रालय में निजी सचिवों (ग्रेड "क" तथा "ख" विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम अधिकारी का नाम
सं.

1. श्रीमती रविकांत बहल, निजी सचिव	तदर्थ
2. श्री दीपक कुकरेजा, निजी सचिव	तदर्थ
3. श्री राजीव शर्मा, निजी सचिव	तदर्थ
4. श्रीमती ललिता एलावाड़ी, निजी सचिव	तदर्थ
5. श्रीमती प्रबोध शर्मा, निजी सचिव	तदर्थ
6. श्रीमती दर्शन बजाज, निजी सचिव	तदर्थ
7. श्रीमती शशि कांता बत्तरा, निजी सचिव	तदर्थ

अरविंद कुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. ए-38016/10/2008-स्था.-III--सेवानिवृत्ति की आयु होने पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपायुक्त, डॉ. नारिका नामशुम 31.01.2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. ए-12025/16/2007-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) शेफाली गुप्ता को दिनांक 14 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (विकिरण निदान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. ए-12025/10/2008-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. समीर कांत आचार्य को दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ

4-452 GI/2008

उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (बाल रोग शल्य चिकित्सा) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2009

सं. ए-12025/4/2008-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हरिन्द्र सिंह सेठी को दिनांक 1.1.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में नेत्र रोग विज्ञान की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. ए-12025/11/2005-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रियंका विश्वकर्मा को 19.08.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. प्रियंका विश्वकर्मा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. प्रियंका विश्वकर्मा की परीक्षा अवधि नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की होगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2009

सं. ए-38012/5/2008-प्रशासन-I--सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र पाल, निजी वैयक्तिक सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 31.12.2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

राज कुमार कालड़ा

उप निदेशक प्रशासन (आर. के. के.)

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. 38017/1/2009-विपणन-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री वाई. के. पांडे, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप कार्यालय, वाराणसी दिनांक 31.12.2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधेश्याम, अवर सचिव

सं. 38017/1/2009-विपणन-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री जे. के. भट्टाचार्य, वरिष्ठ विपणन विकास अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता दिनांक 31.12.2008 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधेश्याम, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. ए-19012/3/2004-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय आदेश सं. 27/38/2008-ई.ओ. (एस.एम.-I) दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 द्वारा इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री टी. आर. रघुनन्दन, आई. ए. एस. (कर्नाटक) 1983 के समय पूर्व प्रत्यावर्तन के अनुमोदन के अनुसरण में उन्हें दिनांक 30 जनवरी, 2009 (अपराह) से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

एल. हौकिप, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2009

सं. 27-1/2009-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 जनवरी, 2009 के का. ज्ञा. सं. 4/4/2008-सी.एस.-I (डी) के अनुसार श्री देशबन्धु तथा श्रीमती अंजु भल्ला के नाम चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उपर्युक्त नियमित ग्रेड-I अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में इस प्रकार नियुक्त करते हैं :--

क्रम नाम	सूची चयन वर्ष
सं.	
1. श्री देशबन्धु	2005
2. श्रीमती अंजु भल्ला	2005

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. 19011/23/2005-स्था.--कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/17/2005-ई.ओ. (एम.एम.-I) दिनांक अगस्त, 2008 की अनुपालना में राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय में उप-सचिव, श्री अनुराग बाजपेई, आई.एफ.एस. (एम. टी. : 94) को निदेशक के रूप में वैयक्तिक तौर पर 19.08.2008 के तत्काल प्रभाव से पुनः नामित करते हैं।

2. राष्ट्रपति, श्री अनुराग बाजपेई को 19.08.2008 के तत्काल प्रभाव से पुनः नामित पद पर निदेशक के रूप में नियुक्त भी करते हैं। केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 10.03.2009 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो तक होगी।

ए. के. साहा, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जनवरी 2009

सं. ए-19011/31/2009-स्था.--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.01.2009 के का. ज्ञा. सं. 4/3/2009-ई.ओ. (एस.एम.-I) के अनुसरण में श्री विवेक मेहरोत्रा भा. प्र. से. (हरियाणा : 74) को दिनांक 19 जनवरी, 2009 (अपराह) से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करती है।

बी. डी. बरूआ, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. 2 (5)/2001-कार्मिक-I--इस विभाग की दिनांक 28.12.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के सिलसिले में श्री विनोद कुमार आहूजा, सहायक सतर्कता अधिकारी की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की अवधि विद्यमान शर्तों एवं निबंधनों पर दिनांक 28.01.2009 से अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि (5वां वर्ष) के लिए और आगे बढ़ा दी गई है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. 1 (3)/2008-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने श्री अभिषेक सिंह, आई.एस. (एनएल : 1995) को दिनांक 28.01.2009 के अपराह से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 7,600/- रुपये ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपये के वेतनमान में चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप सचिव नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. 4 (714)/2002-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री गौतम प्रसाद (कर्मचारी कोड सं. 344) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2009 के अपराह से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 4 (437)/89-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप निदेशक, श्री राम नाथ राम (कर्मचारी कोड सं. 213) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2009 के अपराह से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. पीएफ/571/एनआईसी/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री सी. बी. नाम्बियार, कर्मचारी कोड सं. 571 की संयुक्त निदेशक, एन आई सी. पुणे के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/1217/एनआईसी/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री टी. डी. जैनेन्द्र कुमार, कर्मचारी कोड सं. 1271 की एन आई सी मध्य प्रदेश राज्य एकक, भोपाल में वैज्ञानिक "डी" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 01.12.2008 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/1732/एनआईसी/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री जोस के. पुथूर, (कर्मचारी कोड सं. 1732) का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लक्षद्वीप, संघ शासित राज्य क्षेत्र केन्द्र, कावारत्ती में वैज्ञानिक "ई" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 05 जनवरी, 2009 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/2512/एनआईसी/2008-प्रशासन-I--डॉ. (श्रीमती) प्रवीण वनर्जी, वैज्ञानिक-ई कर्मचारी कोड सं. 2512 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 जनवरी, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/405/एनआईसी/2008-प्रशासन-I--श्री दलजीत सिंह साहनी, वैज्ञानिक "सी" (कर्मचारी कोड सं. 405) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली दिनांक 31 जनवरी, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2008

सं. ई (जी.पी.)/2004/1/49--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेल के सिविल इंजीनियरी विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी की उल्लिखित रेल पर

12.6.2008 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं।

2005-06 के लिए पैनल

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिकारी का नाम

1. श्री बिहारी लाल (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 15 दिसम्बर 2008

सं. ई (जी. पी.)/2005/1/10--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलों के रेल सुरक्षा बल के निम्नलिखित 19 निरीक्षकों को, 21.10.2008 से ग्रुप 'ए' के कनिष्ठ वेतनमान में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करने के लिए सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

2002 के लिए अनुपूरक पैनल

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

1. ई-मोहनन (अ.ज.जा.)

2. लक्ष्मी नारायण

3. अशोक सिंह

4. मंटेक सिंह

2003 के लिए पैनल

1. टी. मुरुगराज

2. के. सुकुमारन पिल्लई

2004 के लिए पैनल

1. पी. के. मोहनदास

2. ओ. पी. मोहनन

3. दुला राम मीना (अ.ज.जा.)

4. राम गोपाल मीना (अ.ज.जा.)

5. रणबीर सिंह (अ.ज.जा.)

6. सुभाष बैठा (अ. जा.)

7. एस. सी. चौधरी (अ. जा.)

2005 के लिए पैनल

1. ब्रह्म प्रकाश दत्ता

2. पी.वी. दिनेशन

3. के. लक्ष्मा नाईक (अ. ज.जा.)

4. चन्द्र भाल सिंह

5. एस. के. इल्दर (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

6. बिबेका नन्दा हल्दर (अ.जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई (जी.पी.)/2006/3/1--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलों के लेखा विभाग के 21 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 23.10.2008 से भारतीय रेल लेखा सेवा (आई.आर.ए.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करती हैं।

2007-08 के लिए पैनल

अधिकारियों का नाम

मध्य रेलवे

सर्वश्री

1. ए. जी. मोरे

पूर्व रेलवे

1. ए. के. घोष

2. एस. एस. चट्टोपाध्याय

उत्तर मध्य रेलवे

1. एस. के. पाण्डे

2. ए. जेड. खान

उत्तर रेलवे

1. संजीव शर्मा

दक्षिण मध्य रेलवे

1. एस. सुजाता

2. एस. दीलीप कुमार

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एन. के. दास (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

2. एस. सी. मंडल (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

3. एस. एस. मुदी (अ. ज. जा.) (अ. ज. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण रेलवे

1. एम. एस. चन्द्रशेखरन

2. एस. शशीरमण

3. बी. त्रिपुरासुन्दरी (आई.सी.ए.फ.के.)

4. एम. लक्ष्मी नरसीम्हन (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

5. राजा लक्ष्मी उदयशंकर (अ. ज. जा.) (आई. सी. एफ. के.) (अ. ज. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण पश्चिम रेलवे

1. आर. कृष्णन

पश्चिम मध्य रेलवे

1. डी. सी. जैन

पश्चिम रेलवे

1. ए. के. भदोरिया

2. डी. एम. सोनावाने

3. पी. पी. कारथा

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 23 दिसम्बर 2008

सं. ई (जी.पी.)/2006/3/1--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलों के लेखा विभाग के 8 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 23.10.2008 से भारतीय रेल लेखा सेवा (आई.आर.ए.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करती हैं।

2007-08 के लिए पैनल

अधिकारियों का नाम

उत्तर रेलवे

सर्वश्री

1. आशु शर्मा

2. गज मोहन

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. ओ. पी. तिवारी

2. बी. डी. शर्मा

3. डी. पी. शर्मा

4. के. सी. रामदेव

5. रवि शर्मा

6. एस. सी. पुनिया (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2009

सं. ई (जी.पी.)/2002/1/61--राष्ट्रपति महोदया, हिन्दी विभाग के निम्नलिखित 4 ग्रुप 'बी' अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीखों तथा रेलों पर नियमित आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नति करने हेतु स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2002-03 के लिए पैनल

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम	दिनांक जिससे प्रभावी	रेलवे/उत्पादन इकाई
1.	श्रीमती मंगला अभ्यंकर	01.12.2004	द. म. रेलवे
2.	श्री एन. बी. जयरामन	28.10.2004	आई.सी.एफ.
3.	श्री पारसनाथ शर्मा (अ.जा.)	06.08.2004	द.पू.म. रेलवे

2003-04 के लिए पैनल

1.	श्री आर. आर. प्रसाद (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	31.12.2004	चिरेका
----	---	------------	--------

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 22 जनवरी 2009

सं. ई (जी. पी.)/2007/3/16--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलवे के जन सम्पर्क विभाग के निम्नलिखित 3 ग्रुप 'बी' अधिकारियों को 14.9.2000 से नियमित आधार पर ग्रुप 'ए' वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान करती है :-

1997-98 के लिए पैन्ल

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम
1.	श्री पी. के. मैत्रा (अ. जा.) (पूर्व रेलवे में कार्यरत)
2.	श्री समीर गोस्वामी (पूर्व रेलवे में कार्यरत)
1999-2000 के लिए पैन्ल	
1.	श्री आर. एन. महामात्र (दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत)

यह अधिसूचना पूर्व अधिसूचना सं. ई (जी. पी.)/94/1/74 दिनांक 28.9.2007 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. ई.आर.बी.-1/2007/2/14--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव/उप निदेशक (वेतनमान 10,000--15,200/- रुपये संशोधन पूर्व) के रूप में पदोन्नत किया गया है :-

क्रम नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख सं.
1. श्री पीयूष कपासी	05.09.2008 (पूर्वाह्न)
2. श्री ए. बी. के. एम. राव	03.10.2008 (पूर्वाह्न)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी.-1/2007/14/3--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के सहायक (वेतनमान 6,500--10,500/- रुपये पूर्व संशोधित), श्री राकेश कुमार को 24.10.2008 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर आरबीएसएस के अनुभाग अधिकारी (वेतनमान 6,500--10,500/- रुपये पूर्व संशोधित) के रूप में पदोन्नत किया गया है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 29 जनवरी 2009

सं. ई.आर.बी.-1/2007/10/4--श्री अब्राहम जैकब, अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान) रेलवे बोर्ड 30.12.2008 से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी.-1/2007/10/4--श्री मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड 30.12.2008 से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

पोत परिवहन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2009

सं. ए-19011/8/2007-स्था.--केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं के नियमित ग्रेड-I अधिकारी श्री अश्वनी कुमार (सीएसएल-3263), जोकि वर्तमान में पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें चयन ग्रेड केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं की वर्ष 2005 की चयन श्रेणी में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. जा. सं. 4/4/2008-सीएस-1 (डी) दिनांक 7 जनवरी, 2009 द्वारा सम्मिलित किया जा रहा है।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2009

सं. 47/1/2007-आर. एंड आर. (Vol. III)--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 82(5) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, डॉ. बी. के. गर्ग को 21 अक्टूबर, 2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, गोवा और मध्य राज्य क्षेत्रों के संयुक्त विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

मलय श्रीवास्तव, निदेशक

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2009

सं. 6/2009, फाईल सं. 25/1(14)/2007-स्थापना एक--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2006 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री सोहन सिंह परमार को दिनांक 3.10.2008 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप-क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रुपये 15,600--39,100 + ग्रेड पे रुपये 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री सोहन सिंह परमार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. ए-32012/13/2006-आई.एस.एच.-II--राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र कुमार रूस्तगी को दिनांक 07.01.2009 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई में निदेशक (स्टाफ प्रशिक्षण/उत्पादकता) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

सं. ए-12025/04/2006-आई.एस.एच.-II--राष्ट्रपति, श्री सौरिश दत्ता चौधरी को दिनांक 08.12.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd February 2009

No. RS/1078/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Shrimati Prakash Munjal, Joint Director retired from service with effect from the afternoon of 31st January 2009.

C. B. RA1, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 28th January 2009

No. A-43011/02/2009-Admn.I—In pursuance of Empowered Group of Ministers' fourth meeting, dated 4th November 2008, the Unique Identification Authority of India (UIDAI) is hereby constituted and notified as an attached office under aegis of Planning Commission with following terms of reference and initial core staff composition:—

Composition :

2. UIDAI shall be set up with an initial core team of 115 officials and staff as per details given below:—

Post	Level	No. of Posts
UID Authority of India		
Director General & Mission Director	Additional Secretary Govt. of India	1
Deputy Director General (DDG)	Joint Secretary, Govt. of India	1
Assistant Director General (ADG)	Director, Govt. of India	1
Support Staff		
PS	PS	3
Peon	Peon	2
Driver	Driver	2
Total Manpower		10
State/UT Units of UIDAI		
State/UT UID Commissioner	Joint Secretary, Govt. of India	35
Support Staff		
PS	PS	35
Peon	Peon	35
Total Manpower		105
Grand Total		115

Role and Responsibilities of UIDAI

3. UIDAI shall have the responsibility to lay down plan and policies to implement UID Scheme, shall own and

operate UID database and be responsible for its updation and maintenance on an ongoing basis.

4. Implementation of UID scheme will entail, inter alia, following responsibilities being undertaken by UIDAI:—

- Generate and assign UID to residents
- Define mechanisms and processes for interlinking UID with partner databases on a continuous basis
- Frame policies and administrative procedures related to updation mechanism and maintenance of UID database on an ongoing basis
- Co-ordinate/liase with implementation partners and user agencies as also define conflict resolution mechanism
- Define usage and applicability of UID for delivery of various services
- Operate and manage all stages of UID lifecycle
- Adopt phased approach for implementation of UID specially with reference to approved timelines
- Take necessary steps to ensure collation of NPR with UID (as per approved strategy)
- Ensure ways for leveraging field level institutions appropriately such as PRIs in establishing linkages across partner agencies as well as its validation while cross linking with other designated agencies
- Evolve strategy for awareness and communication of UID and its usage
- Identify new partner/user agencies
- Issue necessary instructions to agencies that undertake creation of databases, to ensure standardization of data elements that are collected and digitized and enable collation and correlation with UID and its partner databases
- Frame policies and administrative procedures related to hiring/retention/mobilization of resources, outsourcing of various tasks and budgeting & planning for UIDAI and all State units under UIDAI.

5. Planning Commission shall be the nodal agency for UIDAI for providing logistics, planning and budgetary support. Planning Commission would provide initial office and IT infrastructure at central level.

6. Government housing will be provided to officers of UIDAI appointed on deputation from general pool of Department of Urban Development.

Dr. SUBAS PANI, Secy.

New Delhi, the 31st December 2008

No. A-44011/1/2008-Admn.I—Consequent on her promotion to SAG of IES Ms. Archana S. Mathur, Director

is relieved from the Planning Commission with effect from the afternoon of 31st December, 2008 to join Ministry of Petroleum and Natural Gas.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

No. A-44011/1/2008-Adm.I—Consequent on her promotion to SAG of IES Ms. Kirti Saxana, Director is relieved from the Planning Commission with effect from the afternoon of 31st December, 2008 to join Ministry of Development of North Eastern Region.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

No. A-44011/1/2008-Adm.I—Consequent on his promotion to SAG of IES Shri Anil Bisen, Director is relieved from the Planning Commission with effect from the afternoon of 31st December, 2008 to join Department of Economic Affairs.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

No. A-44011/1/2008-Adm.I—Consequent on her promotion to SAG of IES Ms. Urvashi Sadhwani, Director is relieved from the Planning Commission with effect from the afternoon of 31st December, 2008 to join Ministry of Tribal Affairs.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

No. A-44011/1/2008-Adm.I—Consequent on her promotion to SAG of IES Ms. Sunita Chhibba, Director is relieved from the Planning Commission with effect from the afternoon of 31st December, 2008 to join Office of Development Commissioner, Ministry of Micro Small & Medium Enterprises.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

No. A-12025/11/2008-Adm.I—In acceptance of the recommendations of UPSC, the President is pleased to appoint Shri Uttam Singh, Senior Research Officer (Project Appraisal) and adhoc Deputy Adviser (Monitoring Power), Planning Commission as Deputy Adviser (Power) in the Planning Commission in Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- (Grade Pay) on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 24th January, 2009 and until further orders.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

No. A-12025/9/2008-Adm.I—In acceptance of the recommendations of UPSC, the President is pleased to appoint Dr. A. A. Sonkusare, Senior Research Officer (Natural Science) and adhoc Deputy Adviser (Scientific Research), Planning Commission as Deputy Adviser (Energy Policy) in

the Planning Commission in Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- (Grade Pay) on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 27th January, 2009 and until further orders.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 4th December 2008

No. F. 6(2059)/2008-Adm.I—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Office Memorandum No. 7/2/2008-EO (MM.I.) dated 24th November, 2008, the tenure of Shri Manoj Ahuja, IAS (OR : 90) as Private Secretary to the Deputy Chairman, Planning Commission (Shri Montek Singh Ahluwalia) is extended beyond 12.10.2008 on co-terminus basis upto 31.05.2009 or until further orders, whichever is earlier.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 5th December 2008

No. F. 6(2076)/2008-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-8/2008 dated 24.11.2008 issued from File No. 13016/1/2008-IES, Shri Yudhvir Uppal, HAG Officer of IES, has assumed charge as Senior Adviser in Planning Commission in pre-revised scale of pay of Rs. 22,400—24,500/- (now revised to PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 12,000/-) with effect from the afternoon of 3rd December, 2008.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 16th December 2008

No. F. 6(1926)/2005-Adm.I—The competent authority has approved the appointment of Ms. Sushila Panjwani, a regular employee of National Institute of Public Finance and Policy (NIPEP) as Private Secretary to the Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister (Dr. Suresh Tendulkar) at the level of Director for the period from the forenoon of 01.09.2008 and upto 31.12.2008, on lateral shift basis.

2. The appointment of Ms. Sushila Panjwani as PS to the Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister shall be co-terminus with the tenure of the Chairman, EAC or upto 31.12.2008 or till the Chairman, EAC desires her services or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 19th December 2008

No. F. 6(2077)/2008-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-8/2008 dated 24.11.2008

issued from File No. 13016/1/2008-IES, Ms. S. Bhavani, HAG Officer of IES, has assumed charge as Senior Adviser in Planning Commission in the pre-revised scale of pay of Rs. 22,400—24,500/- (now revised to PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 12,000/-) with effect from the forenoon of 15th December, 2008.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 23rd December 2008

No. F. 6(2078)/2008-Adm.I—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Order No. 07/12/2008-EO (SM. I) dated 18th December, 2008, Shri Amitabha Bhattacharya, IAS (AP : 75) has assumed charge as Principal Adviser in the Planning Commission in the pay of Secretary w.e.f. the forenoon of 23rd December, 2008.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 29th December 2008

No. F. 6(1900)/2004-Adm.I—The competent authority has approved the appointment of Shri B. N. Nagesh, a regular employee of Mysore Paper Mills Ltd., Bangalore as Officer on Special Duty to the Minister of State (Planning) (Shri V. Narayanasamy) at the level of Director for the period from the forenoon of 07.04.2008, on lateral shift basis for the balance period of his five years tenure i.e. upto 31.05.2009. He counts his tenure at the center as OSD to the Minister w.e.f. 01.06.2004.

2. The appointment of Shri Nagesh as OSD to the MoS (Planning) (Shri V. Narayanasamy) shall be co-terminus with the tenure of the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever events occurs the earliest.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 31st December 2008

No. F. 6(1926)/2005-Adm.I—Consequent on completion of her tenure as Private Secretary to the Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister (Dr. Suresh Tendulkar), the services of Ms. Sushila Panjwani are placed at the disposal of her parent Organization i.e. National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) with effect from the afternoon of 31st December, 2008.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 2nd January 2009

No. F. 6(1694)/97-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-9/2008 dated 29.12.2008 issued from File No. 13016/2/2008-IES, Shri S. N. Brohmo Choudhury, NFSG officer of IES, has assumed charge as

Adviser in Planning Commission in the pre-revised scale of pay of Rs. 18,400—22,400/- (now revised to PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/-) with effect from the afternoon of 29th December, 2008.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

New Delhi, the 10th November 2008

No. A-12025/01/2005-Admn.II—In continuation of Planning Commission Notification of even number dated 13/15th September 2007, the term of ad-hoc deputation period of Smt. Surekha Soni, Statistical Investigator, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi as Research Officer in the Pay Band-2 of Rs. 93,000—34,800/- in the Planning Commission is hereby extended till 12.03.2009, or till the post is filled on regular basis of until further orders, whichever is the earliest.

2. The ad-hoc appointment will not bestow on Smt. Surekha Soni any claim for regular appointment in the grade of Research Officer and also that any service rendered by her on ad-hoc basis is the grade of Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 28th November 2008

No. A-43011/1/2008-Admn.II—Consequent upon his completion of induction level training and his posting as Research Officer (Junior Time scale of Indian Economic Service) in the Planning Commission vide Department of Economic Affairs (IES Division), Ministry of Finance Order No. T-32/2008 (File No. 13016/4/2008-IES) dated 19.11.2008, Shri Raj Kumar has assumed charge as Research Officer in the Planning Commission with effect from 24th November, 2008 (FN).

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 26th December 2008

No. A-43011/1/2008-Admn.II—Consequent upon his transfer to Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Lucknow vide Department of Economic Affairs (IES Cadre Division), Ministry of Finance Order No. 13016/4/2008-IES dated 19.11.2008, Shri S. P. Mishra, Research Officer (Grade IV of IES) in the Planning Commission in the pre-revised scale of Pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, is relieved of his duties in the Planning Commission with effect from the afternoon of the 26th November, 2008.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 29th December 2008

No. A-43011/01/2008-Admn.II—In supersession of Planning Commission notification of even number dated 26.12.2008, Shri S. P. Mishra, Research Officer (Grade IV of IES) in the Planning Commission in the pre-revised scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, is relieved of his duties in the Planning Commission with effect from the afternoon of the 26th December, 2008 consequent upon his transfer to Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Lucknow vide Department of Economic Affairs (IES Cadre Division), Ministry of Finance Order No. 13016/4/2008-IES dated 19.11.2008.

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 15th December 2008

No. A-11013/60/2004-Adm.III—The President is pleased to appoint Smt. Neelam Khanduri (an outsider) who is presently working as 2nd P. A. in the personal staff of Member (Sh. Anwarul Hoda), Planning Commission as 1st P. A. in his personal staff in the (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) w.e.f. 01.12.2008 (FN) for the period till Member, Planning Commission desires or demits office, whichever is earlier.

BANARSI RAM, Under Secy.

The 29th December 2008

No. A-11013/1/2008-Adm.III—The President is pleased to appoint Miss Sarita Panjwani, an outsider as Additional Private Secretary to Chairman (Dr. Suresh Tendulkar), Economic Advisory Council to the Prime Minister w.e.f. 17.11.2008 (FN) in the revised pay band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- till Chairman, EAC desires or demits office, whichever is earlier.

BANARSI RAM, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 31st January 2009

No. A-19/G-A/90—In pursuance of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training's reference No. 14/8/2008-EO(SM.I), dated 24th January, 2009, Shri R. Bhattacharya, IAS (AP : 78) is hereby relieved from the Secretariat of the Election Commission of India with effect from 31.01.2009 (AN), to enable him to join as Senior Advisor, Planning Commission.

S. R. KAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 16th January 2009

No. A-32014/1/2006-Admn.I(L. D.)—The following Officers officiating as Superintendent (Legal) in the Legislative Department on ad-hoc basis are reverted to their substantive post of Assistant (Legal) with effect from the forenoon of 14.01.2009:—

- (i) Shri R. S. Jayakrishnan
- (ii) Shri K. K. Sharma

L. R. RAO, Dy. Secy.

New Delhi, the 30th January 2009

No. A-12026/5/2000-Admn. 1(L. D.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 4/4/2008-CS. I (D) dated 7th January 2009, Shri L. R. Rao, a Grade-1 Officer of the Central Secretariat Service and working as Deputy Secretary on adhoc basis since 1st August, 2007 in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice has been included in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2005.

DAYA CHAND, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th January 2009

No. A-38013/1/2008-Adm.IV (LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Narinder Singh, Assistant Director (Official Language), Department of Legal Affairs, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2009.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th January 2009

No. I-14012/18/2006-IPS.IV—Under Rule-6 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following candidate to the Indian Police Service on probation on the basis of the Civil Services Examination, 2005 with effect from the date mentioned against his name:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Birth	Date of Appointment to the IPS
1.	Shri Michaelraj. S	02.05.1978	29.08.2006 (FN)

2. The appointment of Shri Michaelraj. S to the Indian Police Service is provisional and subject to necessary verification report with regard to his character and antecedents from the authorities concerned.

INDERJEET KAUR, Director (Police)

New Delhi, the 3rd February 2009

No. J-21023/11/2004-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Meghalaya and the UT Division of the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby transfer Shri Surender Singh Yadav, IPS (AM : 1997), from Assam-Meghalaya to the IPS cadre of AGMUT on the grounds of extreme hardship.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 28th January 2009

No. 23/1/2009-Admn.—The President is pleased to appoint Ms Kirti Saxena, IES (82), as Economic Advisor in the Ministry of Development of North Eastern Region, w.e.f. 21.01.09 (FN) and until further orders.

ASHOLI CHALAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th November 2008

No. Q/PA-II/28/2008—On attaining the age of superannuation, Shri Gautam Pal, First Secretary in the Embassy of India, Algiers retired from the Senior scale of Indian Foreign Service on the afternoon of October 31, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 1st January 2009

No. Q/PA-I/01/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Swashpawan Singh, Ambassador/Permanent Representative of India to the United Nations in Geneva, retired from Grade-I of the Indian Foreign Service on the afternoon of December 31, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/02/2009—On attaining the age of superannuation, Smt. Neelam D. Sabharwal, Ambassador of India, The Hague, retired from Grade-I of Indian Foreign Service on the afternoon of December 31, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/03/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Rattan Singh, Counsellor, Embassy of India, Luanda, retired from Grade-IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of December 31, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/5/2009—The President is pleased to appoint the following officers presently in Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the Service with effect from the forenoon of 1st January 2009:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after promotion
1.	Sh. Abdul Gafoor Algur	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
2.	Sh. Rang Behari Lal	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
3.	Sh. V. K. Sharma	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
4.	Sh. M. P. S. Azad	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
5.	Sh. D. K. Deb Varma	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
6.	Sh. Hemant H. Kotalwar	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
7.	Sh. Sandeep Chakravorty	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
8.	Sh. Charan Jeet Singh	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
9.	Sh. Sanjay Rana	JAG of IFS	Grade-IV of IFS

2. On promotion to Grade-IV of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Junior Administrative Grade (JAG) of IFS on the forenoon of 01.01.2009 and assumed charge of their posts in Grade-IV of the IFS, with effect from the forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 2nd January 2009

No. Q/PA-I/4/2009—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of January 01, 2009:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after promotion
1.	Sh. Divyabh Manchanda	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS
2.	Sh. Dinkar Khullar	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Grade-III of IFS on the forenoon of 01.01.2009 and assumed charge of their

posts in Grade-II of the IFS, with effect from the forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 5th January 2009

No. Q/PA-I/6/2009—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the officer	Present Grade	Grade after promotion	Date of promotion
1.	Sh. A. K. Trigunayat	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	31.12.2008 (FN)
2.	Sh. J. K. Tripathi	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	23.12.2008 (FN)
3.	Sh. A. V. S. Ramesh Chandra	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	23.12.2008 (FN)

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Grade-IV of IFS on the forenoon of their respective date of promotion and assumed charge of their posts in Grade-III of the IFS, with effect from the forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 6th January 2009

No. Q/PA-I/7/2009—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the officer	Present Grade	Grade after promotion	Date of promotion
1.	Sh. Dilip Sinha	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS	22.12.2008 (FN)
2.	Ms. Homai Saha	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS	19.12.2008 (FN)
3.	Sh. Suresh Kumar Goel	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS	19.12.2008 (FN)
4.	Sh. Ashok Sajjanhar	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS	19.12.2008 (FN)
5.	Sh. Biren Nanda	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS	19.12.2008 (FN)
6.	Sh. Deepak K. Bhojwani	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS	19.12.2008 (FN)
7.	Sh. Asoke K. Mukerji	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS	19.12.2008 (FN)
8.	Sh. Dinkar P. Srivastava	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS	19.12.2008 (FN)

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Grade-III of IFS on

the forenoon of their respective date of promotion and assumed charge of their posts in Grade-III of the IFS, with effect from the forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 9th January 2009

No. Q/PA-I/8/2009—The President is pleased to appoint the undermentioned officers presently in Grade-I (in-situ) of the Indian Foreign Service (IFS) to continue to officiate in Grade-I of the Service on regular basis, with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Sh. Banbit Roy	Ambassador of India, Oslo	01.12.2008 (FN)
2.	Sh. S. M. Gavai	High Commissioner of India, Ottawa	01.01.2009 (FN)
3.	Sh. M. L. Dingliana	Amabbsador of India, Sofia	01.01.2009 (FN)

R. GAURAV SHRESTH
Dy. Secy. (FSP)

The 14th January 2009

No. 2/PA-II/2009—On attaining the age of superannuation, Shri R. K. Goel, First Secretary in the Embassy of India, Brussels, retired from the Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service, on the afternoon of 30th November, 2008.

R. GAURAV SHRESTH
Dy. Secy. (FSP)

The 19th January 2009

No. Q/PA-I/9/2009—The President is pleased to appoint the following officers presently in Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the Service with effect from the forenoon of 1st January 2009:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1	2	3	4
1.	Sh. Ram Rattan	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
2.	Sh. I. P. Mohanan	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
3.	Sh. Amal K. Goswami	JAG of IFS	Grade-IV of IFS

1	2	3	4
4.	Ms. Manju	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
5.	Sh. Avinash C. Pandey	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
6.	Sh. K. P. Pillai	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
7.	Sh. Sri Chand	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
8.	Sh. Vijay Kumar	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
9.	Sh. S. N. Srinivasan	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
10.	Sh. R. K. Jha	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
11.	Sh. Ram Lal Negi	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
12.	Sh. V. S. Ramalingam	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
13.	Sh. Manish Prabhat	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
14.	Ms. Pooja Kapur	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
15.	Sh. Ajaneesh Kumar	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
16.	Sh. M. Sridharan	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
17.	Sh. Arun Kumar Sahu	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
18.	Sh. Raj Kumar Singh	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
19.	Sh. Rajesh Vaishnav	JAG of IFS	Grade-IV of IFS
20.	Sh. Puneet Roy Kundal	JAG of IFS	Grade-IV of IFS

2. On promotion to Grade-IV of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Junior Administrative Grade (JAG) of IFS on the forenoon of 01.01.2009 and assumed charge of their posts in Grade-IV of the IFS, with effect from the forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 29th January 2009

No. D-III/460/CF-36/08—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Om Prakash

Lohia as Honorary Consul of Lithuania in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Om Prakash Lohia comprises the States of Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab and Rajasthan.

H. R. SINGH, Dy. Chief of Protocol (F)

The 30th January 2009

No. D-III/460/CF-43/2008—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Abdullah Bin Suleman Al-Isa as Consul General of the Kingdom of Saudi Arabia in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Abdullah Bin Suleman Al-Isa comprises the territory of Mumbai.

H. R. SINGH, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 24th December 2008

(INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS)

No. 60/2008. (F. No.-C.50/02/2008-Ad.II—The President is pleased to grant the Non-Functional Selection Grade (Rs. 14,300-400-18,300/- pre-revised) in the Junior Administrative Grade to the following officers of Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) with effect from the date(s) mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer/ Date of birth	Date of grant of Non- Functional Selection Grade
1.	Sh. Deepak Garg 21.12.1966	01.01.2004
2.	Sh. Rajiv Gupta 14.08.1966	01.01.2004
3.	Sh. P. Ravindra Babu 08.11.1955	01.01.2004
4.	Sh. Amit Goel 30.06.1966	01.01.2005
5.	Sh. J. P. Singh 28.09.1963	01.01.2005

2. The order has no bearing on the inter-se seniority of the officers in the Junior Administrative Grade.

R. SANEHWAL, Dy. Secy.

New Delhi, the 5th January 2009

No. 02 : (F. No. A-19013/25/2008-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri K. S. Rawat, an officer

of Indian Statistical Service (ISS) as Senior Research Officer in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue w.e.f. 24.12.2008 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 6th January 2009

No. 04 : (F. No. A-38013/19/2008-Ad.1)—Shri M. S. Rana, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31st December 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 05 : (F. No. A-38013/20/2008-Ad.1)—Smt. Yashoda Gauri, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31st December 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 19th January 2009

No. A-22011/1/2008-Admn.IA—The President is pleased to appoint Shri Anil Bisen (IES), a Senior Administrative Grade (SAG) officer of IES, as Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the Pay Band 4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the afternoon of 31st December, 2008 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 20th January 2009

No. A-22011/1/2009-Admn.IA—The President is pleased to appoint Shri Sunil Saran (IES), a Non-Functional Selection Grade (NFSG) officer of IES, as Additional Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the Pay Band 4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 5th January, 2009 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 2nd January 2009

No. A-19015/15/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Basudev Dhar, Section Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-III, Kolkata on deputation

basis, in the Pay Band-3, of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of three years w.e.f. 15.12.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

No. A-19013/6/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Imtiaz Ali, Chief Judicial Magistrate, Darrang, to the post of Registrar in the Debts Recovery Tribunal, Guwahati on deputation basis, in the Pay Band-3, of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period of three years w.e.f. 19.12.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

The 9th January 2009

No. A-19013/5/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Saikat Sarkar, (IES : 95), Joint Director, Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Registrar in the Debts Recovery Tribunal-III, Kolkata on deputation basis, in the Pay Band-3, of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period of three years w.e.f. 15.12.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 29th January 2009

No. A-12026/4/2008-Admn.I—The President is pleased to extend the appointment of the following permanent assistants of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Section Officer on purely ad-hoc basis upto 30th June, 2009 or till regular incumbents become available, whichever is earlier:—

1. Ms. Prem Sachdeva
2. Shri D. C. Kaim
3. Shri Sharad N. Hulale
4. Ms. Usha Gill
5. Shri Narender Prakash
6. Shri Praveen Chander Sharma
7. Smt. Vijay Kharat
8. Shri C. M. Kochhar
9. Shri Sunil Kumar
10. Smt. Bimla Sharma

2. The ad-hoc promotion of the above officials will not bestow on them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 30th January 2009

No. PFG(2132)Admn.I/2009—Shri Piarey Lal, Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 31st January, 2009.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 29th January 2009

No. A-60011/3/07-CAC—The President is pleased to appoint, on promotion, the following officers in the grade of Adviser (Cost) in the Indian Cost Accounts Service, Ministry of Finance, Department of Expenditure in the pay scale of PB-4 Rs. 37,400—67,000/-, with Grade Pay of Rs. 10,000/- (Pre-revised Rs. 18,400-500-22,400/-) on regular basis with effect from the dates mentioned against their names and until further orders.

On their appointment as Adviser (Cost) they have been posted to the offices mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date of appointment	Place of Posting
1.	Smt. Aruna Sethi	04.07.2008 (AN)	Office of Chief Adviser (Cost), Department of Expenditure, Ministry of Finance
2.	Sh. Praveen Kumar Aggarwal	29.07.2008 (FN)	Office of Chief Adviser (Cost), Department of Expenditure, Ministry of Finance

M. K. SAHOO, Dy. Director (Cost)

No. A-60011/3/07-CAC—On the recommendations of the UPSC, the President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director (Cost) in the Indian Cost Accounts Service, Ministry of Finance, Department of Expenditure in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—37,400/-, with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Rs. 8000-275-13,500/-) with effect from the dates mentioned against their names and until further orders.

On their appointment as Assistant Director (Cost) they have been posted to the offices mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date of appointment	Place of Posting
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Chunilal Ghosh	26.06.2008 (FN)	Office of Chief Adviser (Cost), Department of Expenditure, Ministry of Finance

1	2	3	4
	S/Shri		
2.	Rajesh Kumar Agarwal	03.06.2008 (AN)	Office of Chief Adviser (Cost), Department of Expenditure, Ministry of Finance
3.	Lalit Wadhwa	13.05.2008 (FN)	Tariff Commission, Ministry of Commerce & Industry
4.	Suraj Kumar Pradhan	04.06.2008 (FN)	Office of Chief Adviser (Cost), Department of Expenditure, Ministry of Finance
5.	Vijay Kumar	06.06.2008 (FN)	Tariff Commission, Ministry of Commerce & Industry

M. K. SAHOO, Dy. Director (Cost)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, 21st January 2009

No. PFG(863)/2004-Ad.I—In continuation to this Ministry's Notification of even number dated 21.01.2004 and in pursuance of Department of Personnel and Training's communication number 27/36/2008-EO(SM.I) dated 20.01.2009, the tenure of Shri Jitesh Khosla, IAS (AM : 79), presently working as Joint Secretary in the Ministry of Corporate Affairs is extended for a period of three months beyond 20.01.2009 i.e. upto 20.04.2009 or until further orders, whichever is earlier.

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 7th January 2009

No. 1/2009(A-32012/1/2008-E.I)—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/1/2008-CS.I (Desk) dated the 20th June, 2008 and 5/1/2008-CS.I(U)Pt.V dated 17th December, 2008, the President is pleased to appoint Ms. R. Lakshmi Devi (CSL No. 6123, DOB : 25.08.1961), Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) on ad-hoc basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, with effect from the forenoon of 31st December, 2008.

2. The ad-hoc appointment of the above Officer is subject to the following conditions:—

- The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

Dr. R. K. MITRA, Director

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 29th January 2009

No. 1/2009 (F. No. 6/2368/2005/HRD-I/287)—On attaining the age of superannuation Shri K. R. Punia, FTDO, (CSS) in this Office will retire from Government service with effect from 31.01.2009 (AN).

G PARTHASARATHY,
Dy. Director General of Foreign Trade

The 30th January 2009

No. 2/2009 (F. No. 6/1477/1984/HRD-I/294)—On attaining the age of superannuation Shri J. M. Desai, ITS, Deputy Director General of Foreign Trade in the Office of Joint Director General of Foreign Trade, Surat will retire from Government service with effect from the afternoon of 31st January 2009.

G PARTHASARATHY,
Dy. Director General of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 22nd December 2008

No. A-45011/1/2008-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Narang, a Grade C' Stenographer of CSSS cadre of Ministry of Environment and Forests as Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged) Private Secretary in the cadre of Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry) on purely ad-hoc basis for the period upto 31.12.2008 or until further orders whichever is earlier, w.e.f. 19.12.2008 (FN).

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (merged) PS of CSSS and the ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving reason therefore, which is further subject to the conditions laid down in DOPT's OMs No. 5/8/2006-CS.II dated 31/05/2006 and 01.03.2007.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 27th January 2009

No. 1/2009 (A-12022/7/2005-Estt)—The President is pleased to appoint Shri Aditya Kumar, IFS (UP : 87) as Director in the Ministry of Textiles in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- (Pre-revised) (Pay Band-4 of Rs. 374,00—67,000/- + 8,700/- (Grade Pay) for a period of 5 years with effect from the forenoon of 27th January, 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

BALBIR SINGH, Under Secy.

The 30th January 2009

No. 2/2009 (A-45013/1/2008-Estt)—Shri A. K. Singh, IAS (MP : 72) Secretary to the Government of India, Ministry of Textiles, will stand retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st January, 2009.

BALBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 14th January 2009

No. A-32011/4/2005-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following Assistants borne on the Cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas, as Section Officer in this Ministry in the pay band of Rs. 9,300—34,800/- plus grade pay of Rs. 4,800/- for the period mentioned against each or till regular Section Officers become available, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Period extended up to
1.	Smt. Amrita	30.06.2009
2.	Smt. Surinder Rani	30.06.2009
3.	Late Shri A. K. Jain	18.10.2008
4.	Shri Surender Kumar	30.06.2009
5.	Smt. Promila Shukla	30.06.2009
6.	Shri H. B. Singh	30.06.2009
7.	Shri Tikam Singh	30.06.2009
8.	Shri Basant Kumar	30.06.2009

2. The appointment of above officers to the post of Section Officer is purely ad-hoc in nature and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the post of Section Officer of CSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 19th January 2009

No. A-19011/9/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Vinod Kotwal, IP&TA&FS (94), Deputy Secretary, Ministry of Food Processing Industries as Director in the Ministry of Food Processing Industries by re-designating the post of Deputy Secretary held by her to that of Director in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with the Grade Pay of Rs. 8,700/- as a measure personal to her w.e.f. 19.01.2009 for the remaining period of her tenure i.e. up to 13.07.2013 or until further orders whichever is earlier.

Smt. Vinod Kotwal, IP&TA&FS (94) has assumed the charge of the post of Director in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 19.01.2009.

S. K. NANDA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd February 2009

No. A-12011/15/2006-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/4/2008-CS.I(D) dated 7th January, 2008, the President is pleased to appoint Shri G. P. Pillai, ad-hoc Deputy Secretary of CSS of this Department as Deputy Secretary of CSS on regular basis in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 1st July, 2004 and until further orders.

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 16th January 2009

No. A-19011/1/2008/P.II(.)—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Gauba, IAS (JH : 82) as Joint Secretary in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 16th January, 2009 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

PREMA MOHAN, Under Secy.

The 19th January 2009

No. A-32012/1/2005-P.II(.)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 7/5/2008-CS.I(S) dated 31st December, 2008, the ad-hoc appointment of the following Assistants of the CSS cadre of the Ministry of Environment & Forests as Section Officers in revised pay Structure PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay), is extended upto 30.06.2009, or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier:—

Sr. No.	Name
1	2
	S/Shri
1.	Vinod Singhal
2.	Permanand
3.	Shiv Charan
4.	D. B. Kumbhare
5.	Suprabhat Chakraborty
6.	Shamsher Singh
7.	Radhe Shyam
8.	Smt. Veena Ahuja

1	2
	S/Shri
9.	Smt. Shakuntala Bedi
10.	Smt. S. K. Babra
11.	Shri Harkesh Chander
12.	Smt. Sushma Sood
13.	Smt. Saroj Verma
14.	Shiv Kumar
15.	S. C. Jain
16.	Vinod Kumar
17.	Satish Mohan
18.	Praveen Kumar Jha
19.	Smt. Sarojini Saxena
20.	Yashwant Singh
21.	Smt. Selsa Kerketta
22.	Shri Swapan Banerjee
23.	Smt. Asha Mahajan
24.	Smt. Damyanti Devi
25.	Smt. Shobha Balakrishnan

2. The ad-hoc appointment will not confer on appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the SL of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS. Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority quota or Limited Departmental Competitive Exam. (LDCE). In the event of ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories they shall be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the data they (regular Section Officers) join duty in this Ministry.

PREMA MOHAN, Under Secy.

New Delhi-110003, the 29th January 2009

No. A-12026/1/2008-CPW—The President is pleased to appoint Dr. Sant Prasad Gautam, presently working as Chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board to the post of Chairman, Central Pollution Control Board, Delhi (Pay Band-4; Scale of Pay : Rs. 37,400—67,000/-; Grade Pay Rs. 12,000/-) on deputation basis for a period of three years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier. The appointment shall be subject to the final order in OA No. 52/2009 before the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

The 4th February 2009

New Delhi, the 15th January 2009

No. A-32014/7/2005-Estt.I—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) for the year 2005 in the cadre of Ministry of Health and Family Welfare (including Dte. G. H. S.) under the zoning scheme, vide DOP&T's OM No. 5/12/2007-CS.II dated 05th November 2008, the President is pleased to appoint the following permanent Grade 'C' Stenographers of the CSSS cadre of this Ministry as Private Secretaries Grade 'A' & 'B' (merged) on regular basis with effect from 05 November 2008.

Sl. No.	Name of Officer
1.	Smt. Ravi Kanta Behl, PS (ad-hoc)
2.	Shri Deepak Kukreja, PS (ad-hoc)
3.	Shri Rajiv Sharma, PS (ad-hoc)
4.	Smt. Lalita Ailawadi, PS (ad-hoc)
5.	Smt. Prabodh Sharma, PS (ad-hoc)
6.	Smt. Darshan Bajaj, PS (ad-hoc)
7.	Smt. Shashi Kanta Batra, PS (ad-hoc)

ARVIND KUMAR, Under Secy.

The 30th January 2009

No. A-38016/10/2008/E.III—On attaining the age of superannuation, Dr. Narika Namshum, Deputy Commissioner in the Department of Health & Family Welfare shall retire from Govt. service w.e.f. 31.01.2009 (AN).

ARVIND KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 28th January 2009

No. A-12025/16/2007-CHS.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Shefali Gupta to the post of Specialist Grade-II (Radio-Diagnosis) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of the 14th November, 2007 until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 30th January 2009

No. A-12025/10/2008-CHS.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Samir Kant Acharya to the post of Specialist Grade-II (Pediatric Surgery) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service on probation w.e.f. 3rd October, 2008 until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/4/08-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Harinder Singh Sethi to the post of Assistant Professor in the Speciality of Ophthalmology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi, the 28th January 2009

No. A-12025/11/2005-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Priyanka Vishwakarma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 19.08.2008 until further orders. Dr. Priyanka Vishwakarma is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Priyanka Vishwakarma shall be on probation for two years from the date of appointment.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 27th January 2009

No. A-38012/5/2008-Admn.-I—Shri Rajender Pal, PPS of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.12.2008 (AN).

R. K. KALRA, Dy. Director Admn. (RKK)

MINISTRY OF AGRICULTURE & CO-OPERATION

New Delhi, the 2nd February 2009

No. 38017/1/2009-MI—On attaining the age of superannuation Shri Y. K. Pandey, Assistant Agricultural Marketing Adviser, Sub-Office, Varanasi, Directorate of Marketing & Inspection has retired from Govt. service on 31.12.2008 (AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

No. 38017/1/2009-MI—On attaining the age of superannuation Shri J. K. Bhattacharya, Senior Marketing Development Officer, Regional Office, Kolkata, Directorate of Marketing & Inspection has retired from Govt. service on 31.12.2008 (AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 28th January 2009

No. A-19012/3/2004-Estt.—In pursuance of the approval of the Department of Personnel & Training vide Order No. 27/38/2008-EO(SM-i) dated 18th December, 2008 for pre-mature repatriation, Shri T. R. Raghunandan, IAS (KN-1983), Joint Secretary of this Ministry stands relieved with effect from the afternoon of 30th January, 2009.

L. HAOKIP, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st January 2009

No. F.27-1/2009-Admn.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List vide Department of Personnel and Training's OM No. 4/4/2008-CS.I(D) dated 07th January, 2009, the President is pleased to appoint the following regular Grade-I Officers of the Central Secretariat Service to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis in the Ministry of Women and Child Development in the Select List indicated against their names:—

Sl. No.	Name	Select List Year
1.	Shri Desh Bandhu	2005
2.	Smt. Anju Bhalla	2005

SHAKUNTLA JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th January 2009

No. 19011/23/2005-Estt.—In pursuance of DoPT's O. M. No. 4/17/2005-EO(MM-I) dated August, 2008, the President is pleased to re-designate the post of Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs held by Shri Anurag Bajpai, IFS (MT : 94) to that of Director as a measure personal to him with effect from 19.08.2008.

2. The President is also pleased to appoint Sh. Anurag Bajpai as Director against the re-designated post w.e.f. 19.08.2008. His tenure of deputation under the Central Staffing Scheme will be upto 10.03.2009 or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 23rd January 2009

No. A-19011 31/2009-Estt. —In pursuance of Appointment Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/3/2009-EO (SM.I) dated 17th January, 2009, the President is pleased to appoint Shri Vivek Mehrotra, IAS (HY : 74) as Secretary, Ministry of Minority Affairs with effect from 19th January, 2009 (AN).

B. D. BARUA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 19th January 2009

No. 2(5)/2001-P.I.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 28.12.2007, the period of deputation of Shri Vinod Kumar Ahuja, Assistant Vigilance Officer on deputation in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (Pre-Revised) in the Department of Information Technology is extended for a further period of one year (5th year) with effect from 28.01.2009 or until further orders, whichever is earlier on the existing terms & conditions.

GIRISH SAHAJ, Dy. Director

The 28th January 2009

No. 1(3)/2008-Pers.I.—The President is pleased to appoint Shri Abhishek Singh, IAS (NL : 1995) as Deputy Secretary in the Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in the pay structure of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the afternoon of 28.01.2009 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAJ, Dy. Director

The 30th January 2009

No. 4(714)/2002-Pers.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Gautam Prasad, Section Officer (E. Code : 344), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology will retire from service with effect from afternoon of 31.01.2009.

GIRISH SAHAJ, Dy. Director

No. 4(437)/89-Pers.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Nath Ram, Deputy Director (E. Code : 213), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology will retire from service with effect from afternoon of 31.01.2009.

GIRISH SAHAJ, Dy. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 30th January 2009

No. PF/571/NIC/2008-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri C. B. Nambiar, Emp. Code : 571 from the post of Joint Director, NIC-Pune

from the forenoon of 20.12.2008 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm-I)

No. PF/1217/NIC/2008-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri T. D. Jainendrakumar, Emp. Code : 1217 from the post of Scientist "D", NIC-Madhy Pradesh State Unit, Bhopal from the forenoon of 01.12.2008 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm-I)

No. PF/1732/NIC/2008-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri Jose K. Puthur, Emp. Code : 1732 from the post of Scientist "E", NIC-Lakshadweep UT Centre, Kavaratti from the forenoon of 05.01.2009 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm-I)

No. PF/2512/NIC/2008-Adm-I—Dr. (Smt.) Parveen Banerjee, Scientist "E" (Emp. Code : 2512), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2009 and she stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm-I)

No. PF/405/NIC/2008-Adm-I—Shri Daljit Singh Sahni, Scientist "C" (Emp. Code : 405), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2009 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm-I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st October 2008

No. E(GP)2004/1/49—The President is pleased to approve the undermentioned Group 'B' Officer of Civil Engineering Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 12.06.2008 on the Railway mentioned.

Panel for 2005-2006

North Eastern Railway

Name of the Officer

Shri Bihari Lal (SC) (Promoted against SC vacancy).

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

The 15th December 2008

No. E(GP)2005/1/10—The President is pleased to approve the undermentioned 19 Inspectors (Group 'C') of Railway Protection Force of Indian Railways being appointed on regular basis to the post of Assistant Security Commissioner in Junior Scale of Group 'A' with effect from 21.10.2008.

Panel for the year 2002 (Supplementary)

Name of the Officer

S/Shri

1. E. Mohanan (ST)
2. Laxmi Narayan
3. Ashok Singh
4. Mantek Singh

Panel for the year 2003

1. T. Murugaraj
2. K. Sukurnaran Pillai

Panel for the year 2004

1. P. K. Mohandas
2. O. P. Mohanan
3. Dula Ram Meena (ST)
4. Ram Gopal Meena (ST)
5. Ranbir Singh (ST)
6. Subhash Baitha (SC)
7. S. C. Choudhury (SC)

Panel for the year 2005

1. Brahm Prakash Dutta
2. P. V. Dineshan
3. K. Lakshma Naick (ST)
4. Chandra Bhal Singh
5. S. K. Haldar (SC) (Promoted against SC vacancy)
6. Bibeka Nanda Haldar (SC) (Promoted against SC vacancy).

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

No. E(GP)2006/3/1—The President is pleased to approve of the undermentioned 21 Group 'B' Officers of Accounts

Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Accounts Service (IRAS) with effect from 23.10.2008 on the Railways mentioned against each..

Panel for 2007-08

Central Railway

Name of the Officer

S/Shri
A. G. More

Eastern Railway

1. A. K. Ghosh
2. S. S. Chattopadhyay

North Central Railway

1. S. K. Pandey
2. A. Z. Khan

Northern Railway

Sanjeev Sharma

South Central Railway

1. S. Sujata
2. S. Dilip Kumar

South Eastern Railway

1. N. K. Das (SC) (Promoted against SC vacancy)
2. S. C. Mandal (SC) (Promoted against SC vacancy)
3. S. S. Mudi (ST) (Promoted against ST vacancy)

Southern Railway

1. M. S. Chandrasekaran
2. S. Sasiraman
3. V. Thirupurasundari (Belongs to ICF)
4. M. Lakshmi Narasimhan (SC) (Promoted against SC vacancy)
5. Raja Laxmi Udayshankar (ST) (Belongs to ICF) (Promoted against ST vacancy)

South Western Railway

1. R. Krishnan

West Central Railway

1. D. C. Jain

Western Railway

1. A. K. Bhadoria
2. D. M. Sonawane
3. P. P. Kartha

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

The 23rd December 2008

No. E(GP)2006/3/1—The President is pleased to approve of the undermentioned 8 Group 'B' officers of Accounts Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Accounts Service (IRAS) with effect from 23.10.2008 on the Railways mentioned against each:—

Panel for 2007-08

Northern Railway

Name of the Officer

- S/Shri
1. Ashu Sharma
 2. Gajmohan

North Western Railway

1. O. P. Tewari
2. V. D. Sharma
3. D. P. Sharma
4. Kanti Chand Ramdeo
5. Ravi Sharma
6. S. C. Poonia (SC) (Promoted against SC vacancy).

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

The 2nd January 2009

No. E(GP)2002/1/61—The President is pleased to approve the following 4 Group 'B' Rajbhasha Adhikaris being promoted to Senior Scale as Senior Rajbhasha Adhikari on regular basis w.e.f. the dates on the Railways/Production Units, indicated against each:—

Panel for the vacancies of 2002-03

Sl. No.	Name of Officer	Promoted to be effective from	Railway/ Production Unit
S/Shri			
1.	Smt. Mangla Abhayankar	01.12.2004	S. C. Railway
2.	N. V. Jayaraman	28.10.2004	I. C. F.
3.	Parasnath Sharma (SC)	06.08.2004	S. E. C. Railway

Panel for the vacancies of 2003-04

S/Shri

R. R. Prasad (SC) 31.12.2004 C. L. W.
(Promoted against SC Vacancy)

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

The 22nd January 2009

No. E(GP)2007/3/16—The President is pleased to approve the undermentioned 3 Group 'B' officers of the Public Relations Department of Indian Railways being promoted to officiate as Senior Public Relations Officers in Group 'A'/ Senior Scale on regular basis with effect from 14.09.2000.

Panel for 1997-98

S/Shri

1. P. K. Moitra (SC) (Working on Eastern Railway)
2. Samir Goswami (Working on Eastern Railway)

Panel for 1999-00

R. N. Mohapatra (SC) (Working on South Eastern Railway)

This is in supersession of the earlier notification No. E(GP)/94/1/74 dated 28.09.2007.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

The 28th January 2009

No. ERB-I/2007/2/14—The following Section Officer's of Railway Board Secretariat Service (RBSS) have been promoted to Grade-1 (Under Secretary/Deputy Director) (Scale : Rs. 10,000—15,200/- pre-revised) on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each:—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri	
1.	Peeyush Kapasi	05.09.2008 (FN)
2.	A. V. K. M. Rao	03.10.2008 (FN)

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2007/14/3—Shri Rakesh Kumar, Assistant (Scale Rs. 6,500—10,500/- pre-revised) of Railway Board Secretariat Service (RBSS) has been promoted as Section Officer of RBSS (Scale Rs. 6,500—10,500/- pre-revised) on regular basis with effect from the forenoon of 24.10.2008.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

The 29th January 2009

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Abraham Jacob, Addl. Member (Tourism & Catering), Railway Board retired voluntarily from service w.e.f 30.12.2008.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Mathew John, Secretary, Railway Board retired voluntarily from service with effect from 30.12.2008.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi-110001, the 27th January 2009

No. A-19011/8/2007-Estt.—Shri Ashwani Kumar (CSL-3263), a regular Grade-I officer of Central Secretariat Services (CSS), presently working as ad-hoc Deputy Secretary in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, is included in the Select List of 2005 for Selection Grade of Central Secretariat Services vide DOPT O. M. No. 4/4/2008-CSI(D) dated 7th January, 2009.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 4th February 2009

No. 47/1/2007-R&R (Vol.-III)—In terms of section 82(5) read with section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Dr. V. K. Garg as Chairperson of the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa and Union Territories for a period of five years from the forenoon of the 21st October, 2008 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

MALAY SHRIVASTAVA, Director

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 27th January 2009

No. 6/2009 (F. No. 25/1(14)/2007/E.I)—On the results of the Engineering Services Examination, 2006, the President is pleased to appoint Shri Sohan Singh Parmar to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 15,600—39,100/- + grade pay Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 03.10.2008 (FN).

2. Shri Sohan Singh Parmar will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 28th January 2009

No. A-32012/13/2006/ISH-II—The President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar Rustagi to the post of Director (Staff Training/Productivity) in the pre-revised pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 07.01.2009 (AN) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.

No. A-12025/04/2006/ISH-II—The President is pleased to appoint Shri Sourish Datta Choudhury to the post of Assistant Director (Safety) in the pre-revised pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 08.12.2008 (FN) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.